

Date: 22.11.2025

BSE Limited
Corporate Compliance & Listing Centre
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001
Security Code: 537254

Sub.: Submission of Newspaper Publication pursuant to Regulation 47(1)(b) read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 regarding Un-audited Financial Results of RCI Industries and Technologies Limited (“the Company”).

Dear Sir/Madam,

In continuation of our letter dated 20.11.2025 and in compliance of Regulation 47(1)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015, we are pleased to enclose copies of the newspaper advertisements that were published on November 21, 2025, in English edition of the Financial Express and Hindi edition in Jan-satta for the following financial result of the Company:

- a) Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2025; and
- b) Consolidated Unaudited Financial Results for the half year and quarter ended on September 30, 2025

Kindly take the same on records and treat the same as compliance with the applicable provisions of the Listing Regulations.

For RCI Industries & Technologies Limited

Sarika Kaur
Company Secretary



POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

This is to inform that Tata Capital Ltd.(TCL) is a non-banking finance company and incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at Peninsula Business Park, Tower A, 11th Floor, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 and a branch office amongst other places at New Delhi ("Branch"). That vide Orders dated 24.11.2023, the National Company Law Tribunal (NCLT) Mumbai has duly sanctioned the Scheme of Arrangement between Tata Capital Financial Services Limited ("TCFSL") and Tata Cleantech Capital Limited ("TCCL") as transferors and Tata Capital Limited ("TCL") as transferee under the provisions of Sections 230 to 232 read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("said Scheme"). In terms thereof, TCFSL and TCCL (Transferor Companies) along with its undertaking have merged with TCL, as a going concern, together with all the properties, assets, rights, benefits, interest, duties, obligations, liabilities, contracts, agreements, securities etc. w.e.f. 01.01.2024. In pursuance of the said Order and the Scheme, all the facility documents executed by TCFSL and all outstanding in respect thereof stood transferred to Applicant Company and thus the TCL is entitled to claim the same from the [Borrowers/Co-Borrowers] in terms thereof. Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice - 24.07.2025 as below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The Borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Symbolic/Constructive Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) read with Rule 8 of the said Act.

The Borrowers, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Tata Capital Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date of demand notice.

[The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.]

**RCI INDUSTRIES & TECHNOLOGIES LTD.**

Regd. Office: Unit No. 421, 4th Floor, Pearl Omaxe Tower,
Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034
CIN: L74900DL1992PLC047055 Website: www.rciind.com
Email: cirp.rci.industries.technologies@gmail.com

**STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025**

(Rs. In Lacs)

S. No	Particulars	Quarter ended		Year Ended	
		30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
1	Income				
	a) Revenue from operations	-	15.04	13.23	97.99
	b) Other Income	0.68	0.53	3.62	19.73
	Total Income	0.68	15.57	16.85	117.72
2	Expenses				
	a) Cost of Material Consumed	-	-	1.40	8.62
	b) Purchase of stock in trade	-	-	-	-
	c) Change in inventories of Finished goods, W.I.P and Stock in trade	-	-	0.41	-
	d) Employee benefit expense	15.62	7.29	3.56	17.98
	e) Finance cost	-	-	-	-
	f) Depreciation and amortisation expense	115.37	135.31	135.31	541.25
	g) Other Expenditure	163.85	76.10	32.34	186.91
	Total expenses	294.83	218.70	173.02	754.77
3	Profit/(Loss) from operations before, tax, exceptional items, Prior Period	(294.16)	(203.13)	(156.18)	(637.05)
4	Exceptional Items	-	-	-	-
5	Prior Period Items	-	-	-	-
6	Profit/(Loss) before tax	(294.16)	(203.13)	(156.18)	(637.05)
7	Tax expense				
	(1) Current Tax	-	-	-	-
	(2) Deferred Tax	2.56	1.75	1.75	6.99
	Total Tax Expense	2.56	1.75	1.75	6.99
8	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(296.72)	(204.88)	(157.93)	(644.04)
9	Other Comprehensive Income	-	-	-	-
10	Total Comprehensive Income / (Loss)	(296.72)	(204.88)	(157.93)	(644.04)
11	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64
12	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (not annualised)				
	a) Basic	(1.89)	(1.31)	(1.01)	(4.11)
	b) Diluted	(1.89)	(1.31)	(1.01)	(4.11)

Notes:-

- The above financial results for the quarter ended June 30th, 2025, have been reviewed by the monitoring committee on November 20th, 2025.
- The Company's activity during the year revolves around manufacturing and trading of all kind of metals and metal products, Considering the nature of Company's business and operations, as well as based on review of operating results by the chief operating decision maker to make decision about resource allocation and performance measurement, there is only one reportable segment in accordance with the requirement of Ind AS 108 "Operating Segments".
- During the year ended March 31, 2020, All the lenders to the Company had declared the account as non performing asset (NPA) due to non-payment of interest due and borrowed amount. There is no provision for interest expense has been made in books of accounts.
- The Company was admitted to Insolvency proceedings under section 9 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) and the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) in the matter of RCI Industries & Technologies Limited ("Corporate Debtor" or "Company") commenced with effect from 25.11.2022 consequent upon Order of the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) New Delhi vide its order dated November 25, 2022 in C.P (IB) No. 2688 of 2019. During the CIRP process, the resolution plan submitted by the JTL Industries Ltd. was approved by the Committee of Creditors (CoC) followed by the approval of the same by the Hon'ble NCLT vide its order dated 9.10.2025. The said resolution plan for revival of the company is currently under implementation under the supervision of the Monitoring Committee constituted as per the approved resolution plan. Accordingly, the financial results have been prepared on a going concern basis, considering the ongoing implementation of the resolution plan and the expectation of the Company.
- The financial result has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued there under and the other accounting principles generally accepted in India.
- Figures for the previous periods have been re-grouped/ rearranged/ restated wherever necessary to make them comparable with those of the current period.
- The above is an extract of detailed format of financial Result quarter ending June 30, 2025 filed with stock Exchange under regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Full format of the financial Result quarter ending June 30, 2025 are available on the website of Stock Exchange i.e., BSE (www.bseindia.com) and also on the company website(www.rciind.com).

For RCI INDUSTRIES & TECHNOLOGIES LIMITED

Sd/

Brijesh Singh Bhadauriya

Chairman of Monitoring Committee

(IB/II/PA-002/IP-N01045/2020-21/13385)

Email: bsb@bsbandassociates.in

Place: Delhi

Date: 20.11.2025

Sd/- Authorised Officer,
For Tata Capital Ltd.Date: 21.11.2025
Place: Agra (U.P.)

Description of Property: RESIDENTIAL HOUSE BEARING OLD NAGAR NIGAM NO. 474 AND PART OF PRESENT NAGAR NIGAM NO. 4/8, MEASURING AREA 43.89 SQ. METERS, SITUATED AT WARD NO. 7, BALUGANJ, TEHSIL & DISTT AGRA UTTAR PRADESH- 282001 MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN SALE DEED ON DATED 24.06.2014 FAVOR OF SANTOSH KUMAR JAIN & SANGEETA JAIN

Loan Account No.	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/Legal Representative (s)	Amount & Date of Demand Notices	Date of Symbolic Possession
TCFLA03 70000012 437434 & TCFLA03 70000013 435116	1. JNV AUTO PARTS AND TYRE CENTRE OFFICE ADDRESS - 4/8A BALUGANJ AGRA - UTTAR PRADESH - 282001 ALSO AT : HOUSE NO. 5/3 A TEELA BALUGANJ AGRA - UTTAR PRADESH - 282001 2. SANTOSH KUMAR JAIN OFFICE ADDRESS - 4/8A BALUGANJ AGRA - UTTAR PRADESH - 282001 ALSO AT : HOUSE NO. 5/3 A TEELA BALUGANJ AGRA - UTTAR PRADESH - 282001 3. SANGEETA JAIN OFFICE ADDRESS - 4/8A BALUGANJ AGRA - UTTAR PRADESH - 282001 ALSO AT : HOUSE NO. 5/3 A TEELA BALUGANJ AGRA - UTTAR PRADESH - 282001 4. NIVESH JAIN OFFICE ADDRESS - 4/8A BALUGANJ AGRA - UTTAR PRADESH - 282001 ALSO AT : HOUSE NO. 5/3 A TEELA BALUGANJ AGRA - UTTAR PRADESH - 282001 5. VIPUL JAIN OFFICE ADDRESS - 4/8A BALUGANJ AGRA - UTTAR PRADESH - 282001 ALSO AT : HOUSE NO. 5/3 A TEELA BALUGANJ AGRA - UTTAR PRADESH - 282001	Rs. 1,26,28,345/- & 24-07-2025	14.07.2025



RCI INDUSTRIES & TECHNOLOGIES LTD.

Regd. Office : Unit No, 421, 4th Floor, Pearl Omaxe Tower,
Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034
CIN: L74900DL1992PLC047055 Website: www.rciind.com
Email: cirp.rci.industries.technologies@gmail.com

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results
For the Quarter and Six Month Ended September 30th, 2025

(Rs. In Lacs)

S. No	Particulars	Quarter ended			Half Year ended		Year Ended
		30-Sep-25 (Unaudited)	30-Jun-25 (Unaudited)	30-Sep-24 (Unaudited)	30-Sep-25 (Unaudited)	30-Sep-24 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)
1	Income						
a)	Revenue from operations	357.83	-	22.77	357.83	36.00	97.99
b)	Other Income	166.62	0.68	15.58	167.30	19.20	19.73
	Total Income	524.44	0.68	38.35	525.12	55.20	117.72
2	Expenses						
a)	Cost of Material Consumed	-	-	-	-	1.40	8.62
b)	Purchase of stock in trade	-	-	-	-	-	-
c)	Change in inventories of Finished goods, W.I.P and Stock In trade	-	-	(0.41)	-	-	-
d)	Employee benefit expense	17.28	15.62	3.56	32.89	7.13	17.98
e)	Finance cost	-	-	-	-	-	-
f)	Depreciation and amortisation expense	119.16	115.37	135.31	234.53	270.63	541.25
g)	Other Expenditure	229.01	163.85	36.72	392.86	69.05	186.91
	Total expenses	365.44	294.83	175.18	660.28	348.20	754.77
3	Profit/(Loss) from operations before, tax, exceptional items, Prior Period	159.00	(294.16)	(136.83)	(135.16)	(293.00)	(637.05)
4	Exceptional Items	-	-	-	-	-	-
5	Prior Period Items	-	-	-	-	-	-
6	Profit/(Loss) before tax	159.00	(294.16)	(136.83)	(135.16)	(293.00)	(637.05)
7	Tax expense						
(1)	Current Tax	-	-	-	-	-	-
(2)	Deferred Tax	2.56	2.56	1.75	5.12	3.50	6.99
8	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	156.44	(296.72)	(138.57)	(140.27)	(296.50)	(644.04)
9	Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-	-
10	Total Comprehensive Income / (Loss)	156.44	(296.72)	(138.57)	(140.27)	(296.50)	(644.04)
11	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64
12	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (not annualised)						
a)	Basic	1.00	(1.89)	(0.88)	(0.89)	(1.89)	(4.11)
b)	Diluted	1.00	(1.89)	(0.88)	(0.89)	(1.89)	(4.11)

Notes:-

- The above financial results for the quarter and half year ended September 30th, 2025, have been reviewed by the monitoring committee on November 20th, 2025.
- The Company's activity during the year revolves around manufacturing and trading of all kind of metals and metal products, Considering the nature of Company's business and operations, as well as based on review of operating results by the chief operating decision maker to make decision about resource allocation and performance measurement, there is only one reportable segment in accordance with the requirement of Ind AS 108 "Operating Segments".
- During the year ended March 31, 2020, All the lenders to the Company had declared the account as non performing asset (NPA) due to non-payment of interest due and borrowed amount. There is no provision for interest expense has been made in books of accounts.
- The Company was admitted to Insolvency proceedings under section 9 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) and the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) in the matter of RCI Industries & Technologies Limited ("Corporate Debtor" or "Company") commenced with effect from 25.11.2022 consequent upon Order of the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) New Delhi vide its order dated November 25, 2022 in C.P (IB) No. 2688 of 2019. During the CIRP process, the resolution plan submitted by the JTL Industries Ltd. was approved by the Committee of Creditors (CoC) followed by the approval of the same by the Hon'ble NCLT vide its order dated 9.10.2025. The said resolution plan for revival of the company is currently under implementation under the supervision of the Monitoring Committee constituted as per the approved resolution plan. Accordingly, the financial results have been prepared on a going concern basis, considering the ongoing implementation of the resolution plan and the expectation of the Company.
- The financial result has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued there under and the other accounting principles generally accepted in India.
- Figures for the previous periods have been re-grouped/ rearranged/ restated wherever necessary to make them comparable with those of the current period.
- The above is an extract of detailed format of financial Result quarter ending September 30, 2025 filed with stock Exchange under regulation 33 of the SEBI(LODR) Regulations, 2015. The Full format of the financial Result quarter ending September 30, 2025 are available on the website of Stock Exchange i.e., BSE (www.bseindia.com) and also on the company website(www.rciind.com).

For RCI INDUSTRIES & TECHNOLOGIES LIMITED

Sd/-

Brijesh Singh Bhadauriya

Chairman of Monitoring Committee

(IBBI/PA-002/IP-N01045/2020-21/13385)

Email: bsb@bsbandassociates.in

Place: Delhi

Date: 20.11.2025

NOTICE AND ONE SECURITY Having total area covered area measuring constructed On Plot No 39 Block B "slf Ved Vihar" Hadbast Village Loni District Ghaziabad, Uttar Pradesh. Plot No. B-39 Bounded As: d, North: Other Land South: Plot No B-38

Sd/-

Authorised Officer For Hero Housing Finance Limited

Shriram Finance Ltd.

Registered Off.: Sri Towers, Plot No. 14A, South Phase Industrial Estate, Guindy, Chennai 600 032
Branch Off: 609E, 6 TH FLOOR, PLOT/BLOCK NO 109, CORPORATE PARK, SANKRIPALACE, AGRA, U.P. 282002
Website: www.shriramfinance.in

POSSESSION NOTICE

"SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED" has been rebranded as "SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LIMITED" as per order of the Hon'ble Registrar of Companies, Chennai. The name of the company has been changed to "SHRIRAM FINANCE LIMITED" with effect from 19th Nov 2025. The change of name is in accordance with the provisions of Section 13(12) of the Companies Act, 2013 and the provisions of Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Companies (Amendment) Rules, 2002 (said Rules) issued demand notices to the Borrowers mentioned in the table below to repay the amount due and interest thereon. The Borrowers having failed to repay the amount due and interest thereon, the public in general is hereby cautioned not to deal with the property which are mentioned in the table below to repay the amount due and interest thereon. The Borrowers having failed to repay the amount due and interest thereon, the public in general is hereby cautioned not to deal with the property which are mentioned in the table below to repay the amount due and interest thereon.

Being the authorised officer of Shriram Finance Limited in accordance with the provisions of Section 13(12) of the Companies Act, 2013 and in exercise of the powers conferred on me by the Hon'ble Registrar of Companies, Chennai, I hereby demand notices to the Borrowers mentioned in the table below to repay the amount due and interest thereon. The Borrowers having failed to repay the amount due and interest thereon, the public in general is hereby cautioned not to deal with the property which are mentioned in the table below to repay the amount due and interest thereon. The Borrowers having failed to repay the amount due and interest thereon, the public in general is hereby cautioned not to deal with the property which are mentioned in the table below to repay the amount due and interest thereon.

The Borrowers having failed to repay the amount due and interest thereon, the public in general is hereby cautioned not to deal with the property which are mentioned in the table below to repay the amount due and interest thereon. The Borrowers having failed to repay the amount due and interest thereon, the public in general is hereby cautioned not to deal with the property which are mentioned in the table below to repay the amount due and interest thereon.

Borrower's Name & Address

2011040001//RSAGRLF2207060001

(Borrower)

R Gupta

Paw bridge, pameshwer gate Firozabad, U.P.-283203

SATYA NARAYAN GUPTA

(Guarantor)

Near Kanhiya sweets Hundawala Bagh, Firozabad,

W/O RAM KUMAR GUPTA (Co-Borrower/Guarantor)

Near Kanhiya sweets Hundawala Bagh, Firozabad,

(Borrower)

Date: 19-Nov-2025

Date: 19-Nov-2025

Amount due as per Demand Notice

-JUNE-2025 of

Five Lakhs Fifty-Four Thousand Nine Hundred Sixty-Four

RSAGRTF2011040001 & RSAGRLF2207060001) as on 05-

interest and charges as per terms and conditions

Description of Property

Plot of land and building Bearing Property Situated at Gata

3000 Sq. feet. Situated at Mauza-Pempur Repura, Muhal

Firozabad Under Chungli Pameshwar Gate kasba Firozabad

Near East by: Rasta Gali. West by: Ahata Shiv Narain.

Borewell

Thereafter Road.



आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजी. कार्या.: यूनिट नं. 421, चौथा तल, प्लॉट ओमेक्स टॉवर,

नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

CIN:L74900DL1992PLC047055, वेबसाइट : www.rciind.com

ई-मेल : cirp.rci.industries.technologies@gmail.com,

30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30-सित.-25 (अलेखापरीक्षित)	30-जून-25 (अलेखापरीक्षित)	30-सित.-24 (अलेखापरीक्षित)	30-सित.-25 (अलेखापरीक्षित)	30-सित.-24 (अलेखापरीक्षित)	31-मार्च-25 (अलेखापरीक्षित)
1	आय						
a)	परिचालनों से राजस्व	357.83	-	22.77	357.83	36.00	97.89
b)	अन्य आय	166.82	0.68	15.58	167.30	19.20	19.73
	कुल आय	524.44	0.68	38.35	525.12	55.20	117.72
2	व्यय						
a)	उपभुक्त सामग्री का लागत	-	-	-	-	1.40	8.62
b)	व्यापार में स्टॉक की खरीद	-	-	-	-	-	-
c)	तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन, डब्ल्यू.आई.पी. तथा व्यापार में स्टॉक	-	-	(0.41)	-	-	-
d)	कर्मचारी लाभ व्यय	17.28	15.62	3.56	32.89	7.13	17.98
e)	वित्तीय लागत	-	-	-	-	-	-
f)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	119.16	115.37	135.31	234.53	270.63	541.25
g)	अन्य व्यय	229.01	163.85	36.72	392.86	69.05	186.91
	कुल व्यय	365.44	294.83	175.18	660.28	348.20	754.77
3	कर, अपवादित मदों, पूर्व अवधि से पूर्व परिचालनों से लाभ/(हानि)	159.00	(294.16)	(136.83)	(135.16)	(293.00)	(637.05)
4	अपवादित मदें	-	-	-	-	-	-
5	पूर्व अवधि मदें	-	-	-	-	-	-
6	कर पूर्व लाभ/(हानि)	159.00	(294.16)	(136.83)	(135.16)	(293.00)	(637.05)
7	कर व्यय						
(1)	चालू कर	-	-	-	-	-	-
(2)	आस्थगित कर	2.56	2.56	1.75	5.12	3.50	6.99
8	कर परचात साधारण गतिविधियों से निवल लाभ/(हानि)	156.44	(296.72)	(138.57)	(140.27)	(296.50)	(644.04)
9	अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-
10	कुल व्यापक आय/(हानि)	156.44	(296.72)	(138.57)	(140.27)	(296.50)	(644.04)
11	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (₹. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64
12	आय प्रति शेयर (₹. 10/- प्रत्येक) (वार्षिकीकृत नहीं)						
a)	वैशिक	1.00	(1.89)	(0.88)	(0.89)	(1.89)	(4.11)
b)	डाइव्यूटेड	1.00	(1.89)	(0.88)	(0.89)	(1.89)	(4.11)

टिप्पणियाँ:-

- 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा 20 नवम्बर, 2025 को निगरानी समिति द्वारा की गई है।
- वर्ष के दौरान गतिविधि सभी प्रकार की धातुओं और धातु दर्यादों के विनिर्माण और व्यापार के इर्द-गिर्द घूमती है, समूह के व्यवसाय और संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, साथ ही संसाधन आवंटन और प्रदर्शन माप के बारे में निर्णय लेने के लिए मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता द्वारा परिचालन परिणामों की समीक्षा के आधार पर, इंड एक्स 108 - 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' की आवश्यकता के अनुसार कब एक रिपोर्ट करने योग्य खंड है।
- 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी के सभी उधारदाताओं ने ब्याज और उधार ली गई राशि का भुगतान न करने के कारण खातों को गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया है। खातों की पुस्तकों में ब्याज व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- कंपनी की दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संहिता) की धारा 9 के तहत दिवाला कार्यवाही में प्रती करायी गया था और आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('कोर्पोरेट देनदार' या 'कंपनी') के मामले में कोर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) 25.11.2022 से प्रभावी रूप से शुरू हुई थी, जो कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) नई दिल्ली के आदेश के अनुसार 25 नवंबर, 2022 को सी.पी. (आईबी) संख्या 2688/2019 में जारी किया गया था। सीआईआरपी प्रक्रिया के दौरान, जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को लेनदारों की समिति (सीओसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके बाद माननीय एनसीएलटी द्वारा 9.10.2025 के आदेश के अनुसार इसे मंजूरी दी गई थी। कंपनी के पुनर्र्धार के लिए उक्त समाधान योजना वर्तमान में अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार गठित निगरानी समिति की देखरेख में कार्यान्वयन में है जिसे समाधान योजना के अनुसार गठित किया गया था। तदनुसार, समाधान योजना के चल रहे कार्यान्वयन और कंपनी की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय परिणाम गोंगड कंसर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित जारी प्रासंगिक नियमों और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- पिछली अवधियों के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहीकृत/ पुनर्व्यवस्थित/ पुनः प्रस्तुत किया गया है।
- उपरोक्त सैबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई (www.bseindia.com) की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट (www.rciind.com) पर भी उपलब्ध है।

आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-

ब्रजेश सिंह भदौरिया

निगरानी समिति के अध्यक्ष

(IBBI/PA-002/IP-N01045/2020-21/13385)

ईमेल: bsb@bsbandassociates.in